

Valiant Communications Limited

(An ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 Certified Company)

Regd. Office : 71/1, Shivaji Marg, New Delhi 110015, India

Corporate Identity No. : L74899 DL1993 PLC056652 | GSTIN : 07 AAACV4250G 1ZJ

T : +91-11-2592 8415, 2592 8416, 2541 0053 | F : + 91-11-2543 4300, 4105 5604

E : admin@valiantcom.com | W : www.valiantcom.com



Date: November 13th, 2024

To,
BSE Limited,
Deputy General Manager
Corporate Relationship Department
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.J. Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001

Sub: Intimation of publication of Un-Audited (Standalone and Consolidated) Financial Results

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith newspaper advertisement for the Un-Audited financial results for the quarter ended September 30th, 2024 published in the following newspapers:-

- Financial Express in English Language (National daily newspaper) - November 13th, 2024
- Jansatta in Hindi Language (Daily newspaper of the State)- November 13th, 2024

This is for your information and record.

Sincerely,
For Valiant Communications Limited

Manish Kumar
Company Secretary

Encl: As above

FINANCIAL EXPRESS

Canara Bank
(A part of India Underwriting)

DEMAND NOTICE

Regional Office: Plot No 303, Phase 2, Udhog Vihar, Gurgaon - 122015

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of Canara Bank issued Demand Notice U/S 13(2) of SARFAESI ACT 2002 to the Borrower / Guarantor / Mortgagor herein in below mentioned consequent upon the dispatch of each notices through registered post and return back undelivered from the borrower/guarantor/mortgagor address. Through this publication they are hereby called upon to repay the amount within 60 days from the date of publication for said notice failing which, bank will take the possession of immovable and movable properties and will sell it through the process in exercise of powers conferred U/S 13(2) read with the rule 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. The borrower / guarantor / mortgagor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the immovable / movable properties and for the outstanding amounts and interest thereon & other charges

Name and Address of Borrower(s) / Guarantor(s)	Description of the Movable / Immovable Properties	Amt. Due as per Demand Notice	Date of Demand Notice
Borrower: Mr Niranjan Kumar Shrivastava S/o Shri Tripurari Prasad RZ 7n, Gali No 3 Main Sagarpur Nangal Raya Delhi-110046 Co-Borrower: Mrs Umaravati Devi W/o Shri Tripurari Prasad (co-borrower) S/o Shri Tripurari Prasad RZ 7n, Gali No 3 Main Sagarpur Nangal Raya Delhi-110046 Guarantor: Mrs Neha Kaim W/o Mr Niranjan Kumar Shrivastava RZ 7n, Gali No 3 Main Sagarpur Nangal Raya Delhi-110046	Name of Title Holder: Mr Niranjan Kumar Shrivastava S/o Shri Tripurari Prasad & Mrs Umaravati Devi W/o Shri Tripurari Prasad Immovable: Residential Plot No 62, Third Floor, Back Side, Left Side Pvt Flat No 303 with roof rights admeasuring area 50 Sq Yards out of 200 Sq Yards, out of Kharsa No 16/14, situated in the area of Village Malhiata and the colony known as Guru Harikrishan Nagar, Uttam Nagar, New Delhi-110059.	Rs. 14,64,913.31 (Rupees Fourteen Lakh Sixty Four Thousand Nine Hundred Thirteen and Paise Thirty One only) together with further interest and incidental expenses, costs.	30.10.2024 NPDA 29.10.2024

Date: 13.11.2024 Place: Gurgaon Sd/- Authorised Officer, Canara Bank

ICICI Home Finance Registered Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400050

Corporate Office: ICICI HFC Tower, J B Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai-400059
Branch Office: Office No-B, 2nd Floor, Sunmridhi Business Suites, 38/A-4, Sanjay Place Agra- 282002
Whereas
The undersigned being the Authorized Officer of ICICI Home Finance Company Limited under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (2) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued demand notices upon the borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.
As the borrower failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the below-mentioned dates. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of ICICI Home Finance Company Limited.
The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Sr. No.	Name of the Borrower/ Co-Borrower/ Loan Account Number	Description of property/ Date of Possession	Date of Demand Notice/Amount in Demand Notice (Rs.)	Name of Branch
1.	Soyta, (Borrower), Afsar, (Co-Borrower), Ali Mohammad (Co-Borrower), LHAGR0001332807	Part Of Plot No 03 Kharsa No 533 1 Wake Sharda Vihar Mauza Bodla Tehsil And Distt Agra- 282007, Bounded By- North: Plot No. 2, South: Part Of Plot No. 3, East: Other Property, West: Road 20 Feet Wide./ Date Of Possession- 07-Nov-24	17-11-2021 Rs. 7,41,327/-	Agro-B

The above-mentioned borrower(s)/ guarantor(s) are hereby given a 30 day notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

Date: November 13, 2024, Place: Agra Authorized Officer, ICICI Home Finance Company Limited

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED
Registered & Corporate Office: 502, Tower-A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013
Circle Office Address - 9B, 2nd Floor, Pusa Road, New Delhi - 110060

DEMAND NOTICE

Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The undersigned is the Authorised Officer of Capri Global Housing Finance Limited (CGHFL) under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act). In exercise of powers conferred under Section 13(2) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Authorised Officer has issued Demand Notice under section 13(2) of the said Act, calling upon the following Borrower(s) (the "said Borrower(s)"), to repay the amounts mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them that are also given below. In connection with above, Notice is hereby given, once again, to the said Borrower(s) to pay to CGHFL, within 60 days from the publication of this Notice, the amounts indicated herein below, together with further applicable interest from the date(s) mentioned below till the date of payment and/or realization, payable under the loan agreement read with other documents/writings, if any, executed by the said Borrower(s). As security for due repayment of the loan, the following assets have been mortgaged to CGHFL by the said Borrower(s) respectively.

S. No.	Name of the Borrower(s) / Guarantor(s)	Demand Notice Date and Amount	Description of secured asset (immovable property)
1.	(Loan Account No. LNHEN0600133027 (Old) 53100000578472 (New) (Noida Branch) Om Prakash (Borrower) Mrs. Durgesh (Co-Borrower)	07-Nov-24 Rs. 978750	All Piece and Parcel of property having land and building having land area admeasuring 106.95 Sq. Yds. (i.e., 89.43 Sq. Mts.), situated in Village Sherpur Mazara, Kakore Uttar Pradesh, and Tehsil Sikandrabad, District Bulandshahr, Uttar Pradesh - 203203 Bounded as follows: East By: House of Jagjoh Singh West By: House of Jagjoh Singh North By: House of Chida South By: Road
2.	(Loan Account No. LNHLMAY00050755 (Old) 5300000078553 (New) (Noida Branch) Pankaj Soni (Borrower) Mrs. Pooja Soni (Co-Borrower)	07-Nov-24 Rs. 1810903	All Piece and Parcel of property having land and building bearing Plot/House No. 3, land area admeasuring 63 Sq. Yds., out of Kharsa No. 135, situated at Village Sadik Nagar, Sangam Vihar, Pargana Loni, Tehsil & District Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201001 Bounded as follows: East By: Other's Property West By: 18 Ft. wide Road North By: House of Manjit South By: House of Priyanka/Ombr Yadav
3.	(Loan Account No. LNHLS200009608 (Old) 51200000791918 (New) (Pusa Road Branch) Ramu Nishad (Borrower) Mrs. Sheela Nishad, Dinesh Kumar (Co-Borrower)	07-Nov-24 Rs. 3490162	All Piece and Parcel of property having land and building bearing Plot No. 1, land area admeasuring 63 Sq. Yds., New MCF No. 3568, Mustali No. 120, Kila No. 22 (8-0), Block - A, situated in Village Badkha, SGM Nagar, Tehsil Badkha, District Faridabad, Haryana - 121001 Bounded as: East By: House No. FS-1173, Kamla Devi West By: 21 Ft. Wide Road North By: 9 Ft. Gali South By: House of Sh. Anand Singh

If the said Borrower(s) shall fail to make payment to CGHFL as aforesaid, CGHFL shall proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the Act and the applicable Rules, entirely at the risks of the said Borrower(s) as to the costs and consequences. The said Borrower(s) are prohibited under the Act from transferring the aforesaid assets, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of CGHFL. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the said Act or Rules made the reunder, shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act.

Sd/- (Authorised Officer),
For Capri Global Housing Finance Limited (CGHFL)

YES BANK LIMITED
Regd. & Corporate Office: Yes Bank House, Off Western Express Highway, Santacruz East, Mumbai - 400055
CIN: L65190MH2003PLC143249, E-mail: communications@yesbank.in, Website: www.yesbank.in

POSESSION NOTICE (U/S Rule 8 (1) - for immovable property)

The undersigned being the Authorized Officer of YES Bank Ltd. under the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(2) of the said Act, calling upon the following Borrower(s) (the "said Borrower(s)"), to repay the amounts mentioned in the respective notices U/S 13(2) of the said Act within a period of 60 days.

The respective borrowers having failed to repay the said amounts, notice is hereby given to the borrowers and public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on me under Sec. 13(4) of the said Act read with Rule 9 of the said Rules.

The respective borrowers in particular and public in general are hereby cautioned not to deal with the said properties and any dealing with these properties will be subject to the charge of the YES Bank Ltd. for the respective amount mentioned herein below along with interest thereon at contracted rate.

Name of Borrower	Description of Secured Asset	Notice Amount (Rs.)	Date of Notice & Date of Possession
1. M/s Dadihala MFRS & Consultants Private Limited (Borrower) through its Directors	Property Situated in Kharsa No. 230, Khata No. 112, Mauza Gora, Area Measuring Rakva 1.789 Hect. Tehsil Chhata, Mathura Uttar Pradesh - 281401	Rs. 2,57,87,737.94/- (Rupees Two Crore Fifty Seven Lakh Eighty Seven Thousand Seven Hundred Thirty Seven and Paise Ninety Four Only) due as on 01.07.2024	04-July-2024 & 08-Nov-2024

Please note that under Section 13(8) of the Act, in case if the dues together with all costs, charges and expenses incurred by us are tendered at any time before the date of publication of the notice for public auction/Sale then Sale shall not be concluded and secured assets shall not be sold or transferred by us, and no further step shall be taken by us for transfer or sale of that secured asset.

Sd/-
Authorized Officer - Yes Bank Ltd.

BAJAJ HOUSING FINANCE LIMITED
Corporate Office: Cerebrum IT Park B2 Building 5th Floor, Kalyani Nagar, Pune, Maharashtra 411014,
Branch Office: 14th Floor Agarwal Metro Heights Netaji Subhash Place Pitampura New Delhi - 110034

Demand Notice Under Section 13 (2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

Undersigned being the Authorized Officer of M/s Bajaj Housing Finance Limited, hereby gives the following notice to the Borrower(s)/Co-Borrower(s) who have failed to discharge their liability i.e., defaulted in the repayment of principal as well as the interest and other charges accrued there-on for Home loan(s)/Loan(s) against Property advanced to them by Bajaj Housing Finance Limited and as a consequence the loan(s) have become Non Performing Assets. Accordingly, notices were issued to them under Section 13 (2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and rules there-on, to their last known addresses, however the same have been returned un-served/undelivered, as such the Borrower(s)/Co-Borrower(s) are hereby intimated/informed by way of this publication notice to clear their outstanding dues under the loan facilities availed by them from time to time.

Loan Account No./Name of the Borrower(s)/ Co-Borrower(s) & Addresses	Address of the Secured/Mortgaged Immovable Asset / Property to be enforced	Demand Notice Date and Amount
Branch : DELHI (LAN No. H401HLL1134777 and H401HLL1144987) 1. RAJA SAH (Borrower) At Plot 141 And 142 Flat No-206, M Block Mohan Garden Gali No4 Uttam Nagar Dwarka, Mor Mohan Garden D.K Mohan Garden West Delhi, Delhi-110059	All That Piece And Parcel Of The Non-agricultural Property Described As: First Floor, Without Roof / Terrace Rights, (rear Rhs/northern, Western Portion), Pvt. No.206, Plot No.141 & 142, Kharsa No.62/1/1, Village Hastals, Mohan Garden Colony, Block M, Uttam Nagar, New Delhi-110059	29th Oct 2024 Rs. 45,31,954/- (Rupees Forty Five Lac Thirty One Thousand Nine Hundred Fifty Four Only)
2. MAHESH SAH (Co-Borrower) At House No-1650 4th Floor JJ Colony B-block, Opp Mother Dairy, Jahangirpuri N.s Mandi North West Delhi, Delhi, Delhi-110033	All That Piece And Parcel Of The Non-agricultural Property Described As: Pvt. Flat No-203 Second Floor Without Roof Rights (Rear Right Side-Northern-Western Portion), Property No-RZ-H-713-A, Main Chotu Ram Marg Raj Nagar-I, Palam Colony New Delhi -110077, East / south / Road, West : Others Property , North : Property No 713, South : Others Property No 712	24th Oct 2024 Rs. 28,88,362/- (Rupees Twenty Eight Lac Eighty Eight Thousand Three Hundred Sixty Two Only)

This step is being taken for substituted service of notice. The above Borrowers and/or Co-Borrowers (Guarantors) are advised to make the payments of outstanding along with future interest within 60 days from the date of publication of this notice failing which (without prejudice to any other remedy available with Bajaj Housing Finance Limited) further steps for taking possession of the Secured Assets/ mortgaged property will be initiated as per the provisions of Sec. 13(4) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

The parties named above are also advised not to alienate, create third party interest in the above mentioned properties. On which Bajaj Housing Finance Limited has the charge.

Sd/-
Authorized Officer Bajaj Housing Finance Limited

IDFC FIRST Bank Limited
(erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited)
CIN : L65101ND2014PLC097792
Registered Office : KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai- 600031.
Tel : +91 44 4564 4000 | Fax : +91 44 4564 4022

Notice under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

The following borrowers and co-borrowers availed the below mentioned secured loans from IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited) The loans of the below-mentioned borrowers and co-borrowers have been secured by the mortgage for their respective properties. As they have failed to adhere to the terms and conditions of the respective loan agreements and had become irregular, their loan were classified as NPA as per the RBI guidelines. Amounts due by them to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited) are mentioned as per respective notices issued more particularly described in the following table and further interest on the said amounts shall also be applicable and the same will be charged as per contractual rate with effect from their respective dates.

Sr No.	Loan Account No.	Type of Loan	Name of borrowers and co-borrowers	Section 13 (2) Notice Date	Outstanding amount as per Section 13 (2) Notice
1	96565548	Home Loan	1. AKHTAR ALI 2. YASHMEEN AKHTARALI	28.10.2024	41,64,060.66/-

PROPERTY ADDRESS : ALL THAT PIECE AND PARCEL OF BUILT-UP UPPER GROUND FLOOR WITHOUT ROOF/TERRACE RIGHTS, AREA MEASURING 100 SQ. YDS. PART OF PROPERTY BEARING NO. NA-74, HAVING PLOT NO.36-A, OUT OF KHARSA NO. 21/16, FULLY FITTED WITH WATER, ELECTRICITY AND SEWAGE CONNECTIONS IN RUNNING/WORKING CONDITIONS, WITH COMMON RIGHTS TO USE ENTRANCE/GATE, STAIR CASE, PASSAGE ALONGWITH ONE CAR AND TWO TWO- WHEELER PARKING SPACE IN STILT AT GROUND LEVEL AND ALL OTHER COMMON FACILITIES, SITUATED IN THE AREA OF VILLAGE KHYALA AND THE COLONY KNOWN AS VISHNU GARDEN EXTN., NORTH EXTN., PART-A, NEW BLOCK-NA, NEW DELHI-110018, AND BOUNDED AS: EAST: PORTION OF PROPERTY, WEST: GALI/ROAD, NORTH: PLOT NO.35, SOUTH: PLOT NO.37

You are hereby called upon to pay the amounts to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited) as per the details shown in the above table with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and other costs, charges etc. within 60 days from the date of this publication, failing which the undersigned shall be constrained to initiate proceedings, under Section 13 (4) and section 14 of the SARFAESI Act, against the mortgaged properties mentioned hereinabove to realize the amount due to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited). Further you are prohibited under Section 13 (13) of the said Act from transferring the said secured assets either by way of sale/lease or otherwise.

Sd/-
Authorized Officer
IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited)

VINAYAK POLYCAN International Ltd.
Regd. Office : 312, Navjeevan Complex, 29, Station Road, Jaipur - 302006 • Ph : 0141-2377007
Fax: 0141-2378830, Email: investor@vinayakpolycan.com, Website: www.vinayakpolycan.com
CIN NO.: L25209RJ2009PLC030620 (Amount Rs. In Lakhs)

Extract of the Standalone Un-audited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2024

S. No.	Particulars	3 months ended 30-09-2024 (Unaudited)	Half Year ended 30-09-2024 (Unaudited)	3 months ended 30-09-2023 (Unaudited)
1	Total Income from Operations (net)	577.31	997.11	568.22
2	Net Profit / (Loss) for the period before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items	8.21	12.29	7.07
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (After Exceptional and /or Extraordinary items)	8.21	12.29	7.07
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.3	7.72	5.81
5	Total Comprehensive Income for the Period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (After Tax) and other Comprehensive Income (After Tax)	3.3	7.72	5.81
6	Equity Share Capital	308.13	308.13	308.13
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the balance sheet of previous year	-	-	-
8	Earning per share (EPS) (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	1. Basic: 0.11 2. Diluted: 0.11	0.25 0.25	0.19 0.19

Note: (1) These Standalone Ind AS Financial Results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Ind AS 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with relevant rules issued thereunder. (2) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2024 are available on the website of Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and website of the Company (www.vinayakpolycan.com).

Sd/-
Vikram Baird
Director & Chief Financial Officer

VALIANT COMMUNICATIONS LIMITED

Regd. Office: 71/1, Shivaji Marg, New Delhi-110015
Corporate Identity Number : L74899DL1993PLC056652
E-mail: investors@valiantcom.com Web: www.valiantcom.com Tel: 011-25928415

UN-AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30.09.2024

PARTICULARS	Quarter ended 30.09.2024 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2023 (Unaudited)	Half year ended 30.09.2024 (Unaudited)
	Total income from operations (net)	1,272.15	1,109.82
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	369.69	183.91	784.85
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	369.69	183.91	784.85
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	279.84	143.46	592.07
Total Comprehensive Income (after tax)	287.04	144.34	605.29
Equity share capital	762.81	722.35	762.81
Earning per share (before and after extra-ordinary items) - Basic and Diluted (in ₹)	3.67	1.99	7.76

Note: Summary details of stand-alone un-audited financial results:
Total income from operations (net) 1,268.17 1,083.35 2,628.45
Profit / (Loss) before tax 374.31 172.86 770.17
Profit / (Loss) after tax 277.64 129.34 569.85
Total Comprehensive Income (after tax) 277.42 129.14 569.39

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange's website (www.bseindia.com) and website of the Company (www.valiantcom.com).

Sd/-
Inder Mohan Sood
Managing Director
Director Identification Number: 00001758

MANUSKHS SECURITIES AND FINANCE LIMITED

CIN: U74899DL1994PLC421095
Registered Office: Mansukh House, Plot No. 6, Pandav Nagar, Delhi-110092
Email: contact@mansukh.com, Telephone No: 011-4761780/809
UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS
(Regulation 52 (b), read with Regulation 52(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 (Rs. In Lakhs)

Sr No.	Particulars	Quarter ended 30.09.2024 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	Year ended 31.03.2024 (Unaudited)
1.	Total Income from Operations	6293.07	5106.89	20373.37
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	1563.77	1053.59	5846.97
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	1563.77	1053.59	5846.97
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	793.22	668.41	3956.90
5.	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	793.22	668.41	3916.28
6.	Paid up Equity Share Capital	681.30	681.30	681.30
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserves)	20769.48	15892.31	18638.79
8.	Securities Premium Account	25.00	25.00	25.00
9.	Retained Earnings	2125.76	1658.61	19245.02
10.	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt*	8000.00	4500.00	4500.00
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-
12.	Debt Equity Ratio	0.38	0.29	0.23
13.	Earnings Per Share (Face value of Rs.10/-each)	-	-	-
14.	1. Basic	11.64	15.06	70.34
	2. Diluted:	11.64	15.06	70.34
3.	Face value per share (in Rupees)	10.00	10.00	10.00
14.	Capital Redemption Reserve	-	-	-
15.	Debtenture Redemption Reserve	-	-	-
16.	Debt Service Coverage Ratio	6.60	9.75	10.19
17.	Interest Service Coverage Ratio	6.00	8.86	9.41

* Paid up Debt Capital represents debt raised through issuance of debentures.
Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the BSE Limited under Regulation 52 of the LODR Regulations. The full format of the quarterly and year ended financial results is available on the website of the BSE Limited and the Company's website - (<http://www.mansukh.com>).
2. For the other items referred in Regulation 52(4) of the LODR Regulations, pertinent disclosure have been made to BSE Limited and can be accessed on the URL (<http://bseindia.com/>)
For Mansukh Securities & Finance Limited
Sd/-
Mr. Kapil Anand
Director
DIN: 00041743
Place : Delhi
Date : 12.11.2024

Axis Bank Retail Lending and Payment Group (Local Office/Branch): Axis House, Tower-2, 2nd Floor, I-14, Sector-128, Huda City Expressway, Jaypee Green, Wishtom, Noida-201301, U.P. Axis Bank Ltd., 3rd Floor, Gigaplex, NPC - 1, TTC Industrial Area, Mugalsan Road, Airoli, Navi Mumbai - 400 708 Registered Office: Trishul, 3rd Floor Opp. Samarsharth Temple Law Garden, Elisbridge Ahmedabad - 380006.

E-AUCTION NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with proviso to Rule 8(b) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property is mortgaged/charged to the secured creditor. The physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of Secured Creditor will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" on 08/06/2022 for recovery of Rs.2,06,19,000/- (Rupees Two Crore Six Lakh Nineteen Thousand Only) dues as on 30.11.2021 with future interest and costs due to the secured creditor from 1. M/S GLEAM FABMAT LIMITED, 2. Mrs. Pushpa Gupta, 3. Mr. Amit Gupta, 4. Mr. Anil Kumar Gupta, & 5. Mr. Arun Gupta in Loan No. 918XXXXXXX1266, Please refer to the appended auction schedule for necessary details-

KNOWN ENCUMBRANCES (IF ANY)	No
RESERVE PRICE (IN RS.)	Rs. 1,20,00,000/- (Rs. One Crore Twenty Lakh Only)
EARNEST MONEY DEPOSIT (IN RS.)	Rs. 12,00,000/- (Rs. Twelve Lakh Only) through DD/ PO in favor of Axis bank Ltd. payable at Delhi.
BID INCREMENTAL AMOUNT	Rs. 10,000/- (Rs. Ten Thousand only)

LAST DATE, TIME AND VENUE FOR SUBMISSION OF BIDS / TENDER WITH EMD
Till 10th Dec. 2024, latest by 05:00 P.M. Axis House, Tower-2, 2nd Floor, I-14, Sector-128, Noida Expressway, Jaypee Greens Wishtom, Noida-201301, U.P. addressed to Mr. Anuj Gupta

DATE, TIME AND VENUE FOR PUBLIC AUCTION
On 12th Dec. 2024, between 11:00 A.M and 12:00 Noon, with unlimited extensions of 5 minutes each at web portal <https://www.bidsale.auction.com> e-auction tender documents containing e-auction bid form, declaration etc., are available in the website of the Service Provider as mentioned above.

SCHEDULE - DESCRIPTION OF PROPERTY
Equitable Mortgage of Commercial One Shop located at Ground Floor facing Eastern Side in Property bearing No. 5434, 5503 to 5505 constructed on Part of Plot No. 15, South, Ward No-XIV, situated at East/Haridip Singh Sadar Thana Road, Delhi - 110006 along with the right of the land measuring about 28.51 Sq. Yards owned Smt. Pushpa Gupta W/o. Sh. Anil Kumar Gupta, East - Footpath, Road, West - Other Property, North - Common Wall & Other Shop, South - Common Wall & Other Shop. For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in the secured creditor's website i.e. <https://www.axisbank.com/auction-retail> and the Bank's approved service provider M/S C1 India Private Limited at their web portal <https://www.bankauctions.com>. The auction will be conducted online through the Bank's approved service provider M/S. C1 India Private Limited at their web portal <https://www.bankauctions.com>. For any other assistance, the intending bidders may contact Mr. Anuj Gupta, Mobile, No. +91-9911852040 Authorized officer of the Bank during office hours from 9:30 a.m. to 4:00 p.m.
Date 13.11.2024, Place: Delhi Sd/- Authorized Officer, Axis Bank Ltd.

Optimus ऑप्टिमस इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 30, पुणे रोड, लखनऊ नगर - II, नई दिल्ली-110024

कॉर्पोरेट कार्यालय: 30-34B, मेनडोर, 63, ओरिजल, उत्तर प्रदेश-201307

वेबसाइट: www.optimus.com | ईमेल: info@optimus.com | फोन: 011-29840905

ब्रोकर विभाजन

पुणे ड्राफ्ट सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित ड्राफ्ट प्रमाणपत्र को जो जानकारी हो जाने की सुचना की गई है अन्य प्रमाण ड्राफ्ट/ड्राफ्ट की जानकारी उपरोक्त ड्राफ्ट सूचित किया जा रहा है।

क्र.	पॉलिनियो संख्या	सेक्टर/धारा का नाम	प्रमाणपत्र संख्या(ए)	वित्तीय संख्या(ए)	क्षेत्रों की संख्या
1.	D000025	निजल कुसाटी	11843-11872	1183521-1186520	3,000
कुल					3,000

कोई भी व्यक्ति जिसे एक उपरोक्त ड्राफ्ट प्रमाणपत्र के संबंध में कोई टिप्पणी है इस नोटिफिकेशन के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर मेनडोर, 63, ओरिजल, उत्तर प्रदेश-201307 पर या ऑप्टिमस लिमिटेड के पता नं. 34B, मेनडोर-63, ओरिजल, उत्तर प्रदेश-201307 में लिखित अथवा कांप्यूटरीकृत रूप में टिप्पणी प्रेषित या info@optimus.com पर लिखें, जिसके साथ किसी भी ड्राफ्ट पर विचार नहीं किया जाएगा और कंपनी टिप्पणी के ड्राफ्ट प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अलग नहीं करेगी।

ऑप्टिमस इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के लिए ड्राफ्ट/टिकट

दिनांक: 11 नवंबर, 2024

स्थान: कोयंबटूर

ऑप्टिमस इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के लिए ड्राफ्ट/टिकट कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी द्वारा

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि.

पंजी. कार्यालय: 11बी वल, टावर ए, पेनिंग्टन विक्टोरिज पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोहार पंच, मुम्बई-400013. CIN: U67190MH2008PLC187552

सर्व-साधारण तथा विशेष रूप से ब्रह्मचारीकों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडिट टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ओर से प्राधिकृत अधिकारी ने 29.7.2024 को श्री राजीव अग्रवाल (ब्रह्मचारीक), श्री भगवान दास अग्रवाल एवं श्रीमती उषा अग्रवाल एवं श्री रामा शंकर अग्रवाल एवं मै. रामा शंकर अग्रवाल एंड क., द्वारा उसे निदेशों/कार्टर/नर (सह-ब्रह्मचारीक) की रूप खाता संख्या 96654547 से जुड़ी विवरणों पर, सेक्टर 16-बी, सिकन्दरा योजना, पंडित दीन दयाल उपाध्याय पुरम, लोहामंडी चौक, तहसील तथा जिला अमेर, उ.प्र.-282000 में स्थित व्यावसायिक सम्पत्ति/ऑफिस नं. 9 एवं 8, ऊपरी गू भू-तल/रेलवे; पुरिया माप 275.83 वर्ग फुट अर्थात् 25.62 वर्ग मी. माप पूर्व से परिवर्ण 10.6 फीट, उत्तर से दक्षिण 26.3 फीट, सुपर निहित परिसर 300 वर्ग मीटर अर्थात् 27.86 वर्ग मी. को सम्पत्ति का सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत नीलामी अधिनियम किया है।

श्री अग्रय नर को सफल बोलीदाता घोषित किया गया था तथा उक्त सम्पत्ति की विक्री सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत नीलामी द्वारा की गई है। मूल दस्तावेजों की प्रमाणीत प्रति क्रेता को सुपुर्द की जाएगी।

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी
कृने, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
दिनांक: 13.11.2024

डिजिटल सेवाएं एवं वेबपेज (खानगी कार्यालय/शाखा) : एक्सिस बैंक, उत्तर-2, 2A नर, अरू-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रेसवे, उत्तरी ग्रीन सिटी/उत्तर नोएडा-201301, 3.3, एक्सिस बैंक लि. 3A नर, गंगा एक्सप्रेस, एपीसी-1, टिरोनी इंडस्ट्रियल एरिया, गुलाबनगर रोड, ऐरेली, नवी मुम्बई-400708, पंजीकृत कार्यालय: 'बिजुल', 3A नर, समर्थन टेम्पल के सामने, लॉ गार्डन, एक्सिस बिल्डिंग, अन्वयनगर-480006

अचल परिसरों के विक्री के लिये ई-नीलामी सूचना

प्रतिभूत हित (प्रवर्धन) निगमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्राधान्यों के साथ पंडित विनोय परिसरों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूत हित प्रवर्धन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत

एतद्वारा सर्व-साधारण तथा विशेष रूप से ब्रह्मचारीकों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडिट टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ओर से प्राधिकृत अधिकारी ने 29.7.2024 को श्री राजीव अग्रवाल (ब्रह्मचारीक), श्री भगवान दास अग्रवाल एवं श्रीमती उषा अग्रवाल एवं श्री रामा शंकर अग्रवाल एवं मै. रामा शंकर अग्रवाल एंड क., द्वारा उसे निदेशों/कार्टर/नर (सह-ब्रह्मचारीक) की रूप खाता संख्या 96654547 से जुड़ी विवरणों पर, सेक्टर 16-बी, सिकन्दरा योजना, पंडित दीन दयाल उपाध्याय पुरम, लोहामंडी चौक, तहसील तथा जिला अमेर, उ.प्र.-282000 में स्थित व्यावसायिक सम्पत्ति/ऑफिस नं. 9 एवं 8, ऊपरी गू भू-तल/रेलवे; पुरिया माप 275.83 वर्ग फुट अर्थात् 25.62 वर्ग मी. माप पूर्व से परिवर्ण 10.6 फीट, उत्तर से दक्षिण 26.3 फीट, सुपर निहित परिसर 300 वर्ग मीटर अर्थात् 27.86 वर्ग मी. को सम्पत्ति का सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत नीलामी अधिनियम किया है।

श्री अग्रय नर को सफल बोलीदाता घोषित किया गया था तथा उक्त सम्पत्ति की विक्री सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत नीलामी द्वारा की गई है। मूल दस्तावेजों की प्रमाणीत प्रति क्रेता को सुपुर्द की जाएगी।

क्र. सं.	विवरण	चाहू रिमाईनी 30.09.2024 को समाप्त	वित्तीय वर्ष 30.09.2023	वित्तीय वर्ष 31.03.2024 का समाप्त	वर्ष-दर-वर्ष अंतर 31.03.2024 का समाप्त
1.	परिचालन से कुल आय (मूल्य)	276.21	32.59	101.29	
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/वा असाधारण मदों से पहले)	276.09	2.93	38.51	
3.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) कर से पहले (असाधारण और/वा असाधारण मदों के बाद)	276.09	2.93	38.51	
4.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) कर के बाद (असाधारण और/वा असाधारण मदों के बाद) असाधारण मदों के बाद	275.64	-1.24	36.22	
5.	अवधि के लिए शुद्ध व्याज आय (अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) कर के बाद) और अन्य व्याज आय (कर के बाद) शामिल	275.64	-1.24	36.22	
6.	मुकता इम्प्रीवमेंट शोध पूर्ण (अंकित मूल्य रु 10/- प्रत्येक)	31.42	31.42	31.42	
7.	अन्य इम्प्रीवमेंट रिजर्व (पुनर्नवीनीकरण रिजर्व को छोड़कर)	148.18	148.18	148.18	
8.	प्रति शान आय (अंकित मूल्य रु. 10 प्रत्येक) (जारी और बंद परिभाषा के लिए)				
नैतिक		87.71	-0.39	11.53	
नलर		0.00	0.00	0.00	

नुओर

1. उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 11 नवंबर, 2024 को आयोजित कंपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा पुनर्निर्माण किया गया है।

2. उपरोक्त सेबी (सूचीकरण) विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर रिमाईनी वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। दायित्व और प्रवर्धनीकृत (आय/उत्पत्ति) विनियम, 2015

माकेटिंग ट्रेडिंग लिमिटेड की ओर से
हस्ताक्षर/प्रमाणित/अधिकृत अधिकारी
दिनांक: 12.11.2024

बीएलबी लिमिटेड

CIN : L67120DL1981PLC354824

पंजीकृत कार्यालय : मकान सं. 4760-61/24, तुलीय तल, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली-110 002

वेबसाइट रु www.blblimited.com, ईमेल : infobl@blblimited.com, दूरभाष : 011-49325600

30 सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही तथा छह माह के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त अर्द्धवर्ष		समाप्त वर्ष
	30-सितं-24 (अलेखापरीक्षित)	30-सितं-24 (अलेखापरीक्षित)	30-सितं-23 (अलेखापरीक्षित)	30-सितं-23 (अलेखापरीक्षित)	
1. परिचालन से कुल आय (मूल्य)	17,092	23,605	2,530	40,697	6,470
2. अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (कर, अपवाधिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पहले)	372	1,201	166	1,573	460
3. कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आपवाधिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरान्त)	372	1,201	166	1,573	460
4. कर उपरान्त अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आपवाधिक तथा / अथवा असाधारण मदों के उपरान्त)	309	869	123	1,178	348
5. अवधि हेतु कुल व्याज आय (अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (कर उपरान्त) तथा अन्य व्याज आय (कर उपरान्त) से समायोजित)	309	869	124	1,178	350
6. समाप्त अंश सुकुं	529	529	529	529	529
7. आरक्षितियों (पुनर्नवीनीकरण आरक्षित छोड़कर) पूर्ववर्ती वर्ष के लेखापरीक्षित तुलना-वृत्त में निरतिष्ठानता					9,102
8. आय प्रति शेर (एपीसी रु. 1/- प्रत्येक का) (परिचालन एवं आरक्षितित परिवर्तनों के लिए)	0.58	1.64	0.23	2.23	0.49
मुकता :	0.58	1.64	0.23	2.23	0.66
नलरकृत :					0.49

दिनांक: 12-11-2024

स्थान : नई दिल्ली

नुओर

1. उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई थी तथा तदुपरान्त निदेशक मंडल ने 12 नवंबर 2024 को आयोजित कंपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा पुनर्निर्माण किया था।

2. उपरोक्त सेबी (सूचीकरण) विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर रिमाईनी वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। दायित्व और प्रवर्धनीकृत (आय/उत्पत्ति) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर रिमाईनी वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. की वेबसाइट www.nseindia.com पर और कंपनी की वेबसाइट www.blblimited.com पर उपलब्ध है।

3. दिनांक 30 सितंबर 2024 के अनुसार कंपनी द्वारा धारित अंशों तथा प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य रु. 10,45,90,20,00,00,00,00 (दश कोटि लाख) है। (बढ़ी मूल्य : रु. 4,76,88,79,00,00,00,00)

4. कंपनी के पास 30 सितंबर 2024 के अनुसार कोई भी सहायक-कंपनी, सहयोगी-कंपनी तथा संयुक्त उद्यम नहीं है।

बोर्ड के आदेशानुसार
क्यू बीएलबी लिमिटेड
हस्ता/- (अधिकृत अधिकारी)
पूरुषोत्तम निदेशक
(कार्यकारी निदेशक)
डीआरआई: 00014049

दिनांक: 12-11-2024

स्थान : नई दिल्ली

बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कारपोरेट कार्यालय : सेक्टर आईटी पार्क बी-2 बिल्डिंग, 5वां तल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र-411 014

शाखा कार्यालय : 14बी तल, अम्बाला रोड हाइडर, नेताजी सुभाष प्लेस, गुलाबनगर, नई दिल्ली-110034

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्धन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना

अधोहस्ताक्षरी मैसर्स बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद्वारा निम्नलिखित सूचना कार्यकारी/राज/सह-कार्यकारी(सी) को जारी कर रहा है, जो अपनी देयता का निर्वहन करने में असफल रहे हैं अर्थात् बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उक्त सम्पत्ति के प्रवर्धन में किए गए आवसत प्रमाण/सूचनाओं के मुताबिक और उपाय उद्भव न्यून एवं अन्य प्रमाणों के प्रतिभूतियों में असफल रहे हैं और उनके प्रतिभूतिकरण ब्रह्म अनाजक आर्द्र हो गए हैं। तदनुसार उनकी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्धन अधिनियम, 2002 की 13 (2) और उनके नियमों के तहत सुपुर्द करेंगे, उनके अतिरिक्त ज्ञात पते पर, जारी की गई थी। क्षतिपूर्ति वे बिना सुपुर्दगी/बिना तामील वापस प्राप्त हो चुकी है, अतः कार्यकारी/राज/सह-कार्यकारी(सी) को इस प्रकारकन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे उनके द्वारा समय समय पर प्राप्त की गई सूचना सुविधाओं के तहत बकाया राशियों को भुगतान करेंगे।

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त अर्द्धवर्ष	समाप्त वर्ष
1.	परिचालन से कुल आय (मूल्य)	17,092	23,605	2,530
2.	अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (कर, अपवाधिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पहले)	372	1,201	166
3.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) कर से पहले (असाधारण और/वा असाधारण मदों के बाद)	372	1,201	166
4.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) कर के बाद (असाधारण और/वा असाधारण मदों के बाद) असाधारण मदों के बाद	309	869	123
5.	अवधि के लिए शुद्ध व्याज आय (अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (कर उपरान्त) तथा अन्य व्याज आय (कर उपरान्त) से समायोजित)	309	869	124
6.	समाप्त अंश सुकुं	529	529	529
7.	आरक्षितियों (पुनर्नवीनीकरण आरक्षित छोड़कर) पूर्ववर्ती वर्ष के लेखापरीक्षित तुलना-वृत्त में निरतिष्ठानता			
8.	आय प्रति शेर (एपीसी रु. 1/- प्रत्येक का) (परिचालन एवं आरक्षितित परिवर्तनों के लिए)	0.58	1.64	0.23
मुकता :	0.58	1.64	0.23	
नलरकृत :				

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त अर्द्धवर्ष	समाप्त वर्ष
1.	परिचालन से कुल आय (मूल्य)	17,092	23,605	2,530
2.	अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (कर, अपवाधिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पहले)	372	1,201	166
3.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) कर से पहले (असाधारण और/वा असाधारण मदों के बाद)	372	1,201	166
4.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) कर के बाद (असाधारण और/वा असाधारण मदों के बाद) असाधारण मदों के बाद	309	869	123
5.	अवधि के लिए शुद्ध व्याज आय (अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (कर उपरान्त) तथा अन्य व्याज आय (कर उपरान्त) से समायोजित)	309	869	124
6.	समाप्त अंश सुकुं	529	529	529
7.	आरक्षितियों (पुनर्नवीनीकरण आरक्षित छोड़कर) पूर्ववर्ती वर्ष के लेखापरीक्षित तुलना-वृत्त में निरतिष्ठानता			
8.	आय प्रति शेर (एपीसी रु. 1/- प्रत्येक का) (परिचालन एवं आरक्षितित परिवर्तनों के लिए)	0.58	1.64	0.23
मुकता :	0.58	1.64	0.23	
नलरकृत :				

नुओर

1. उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई थी तथा तदुपरान्त निदेशक मंडल ने 12 नवंबर 2024 को आयोजित कंपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा पुनर्निर्माण किया था।

2. उपरोक्त सेबी (सूचीकरण) विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर रिमाईनी वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। दायित्व और प्रवर्धनीकृत (आय/उत्पत्ति) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर रिमाईनी वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. की वेबसाइट www.nseindia.com पर और कंपनी की वेबसाइट www.blblimited.com पर उपलब्ध है।

3. दिनांक 30 सितंबर 2024 के अनुसार कंपनी द्वारा धारित अंशों तथा प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य रु. 10,45,90,20,00,00,00,00 (दश कोटि लाख) है। (बढ़ी मूल्य : रु. 4,76,88,79,00,00,00)

4. कंपनी के पास 30 सितंबर 2024 के अनुसार कोई भी सहायक-कंपनी, सहयोगी-कंपनी तथा संयुक्त उद्यम नहीं है।

बोर्ड के आदेशानुसार
क्यू बीएलबी लिमिटेड
हस्ता/- (अधिकृत अधिकारी)
पूरुषोत्तम निदेशक
(कार्यकारी निदेशक)
डीआरआई: 00014049

दिनांक: 12-11-2024

स्थान : नई दिल्ली

कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय 502, टावर-ए, पेनिंग्टन विक्टोरिज पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोहार पंच, मुम्बई-400013

संश्लित कार्यालय पता - 9बी, द्वितीय तल, पुणे रोड, नई दिल्ली-110005

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्धन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ परित प्रतिभूति हित (प्रवर्धन) निगमावली, 2002 के नियम 3(1) के अधीन। अयोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्धन अधिनियम, 2002 (इस अधिनियम) के तहत की गई वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण (सीजीएफएफए) का प्राधिकृत अधिकारी है। प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के साथ परित उक्त निगमावली के नियम 3 के अधीन प्रदत्त राशियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें निम्नलिखित कार्यकारी(सी) (उक्त कार्यकारी(सी)) से उनकी जारी की गई संबंधित मांग सूचनाओं(सी) में गणित राशियां, जो नीचे दी गई हैं, चुकाने की मांग की गई थी। उपरोक्त के संबंध में, एतद्वारा, उक्त कार्यकारी(सी) को, एक बार पुनः, यहां नीचे दी गई राशियों का भुगतान सीजीएफएफए को, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक, ब्रह्म अनुभव के साथ पिटव अथवा दर्तावतियों प्रलेखी, यदि कोई, जो उक्त कार्यकारी(सी) द्वारा निष्पादित किया गया है, के तहत दाय आंग व्याज सहित, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए सूचना दी जाती है। उक्त कार्यकारी(सी) द्वारा ब्रह्म की प्रतिभूति के लिए निम्नलिखित आस्तियां सीजीएफएफए के पास चकक रखा गई है।

क्र. सं.	विवरण	चाहू रिमाईनी 30.09.2024 को समाप्त	वित्तीय वर्ष 31.03.2024 का समाप्त	वर्ष-दर-वर्ष अंतर 31.03.2024 का समाप्त	वर्ष-दर-वर्ष अंतर 31.03.2024 का समाप्त
1.	परिचालन से कुल आय (मूल्य)	276.21	32.59	101.29	
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवाधिक और/वा असाधारण मदों से पहले)	276.09	2.93	38.51	
3.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) कर से पहले (असाधारण और/वा असाधारण मदों के बाद)	276.09	2.93	38.51	
4.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) कर के बाद (असाधारण और/वा असाधारण मदों के बाद) असाधारण मदों के बाद	275.64	-1.24	36.22	
5.	अवधि के लिए शुद्ध व्याज आय (अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) कर के बाद) और अन्य व्याज आय (कर के बाद) शामिल	275.64	-1.24	36.22	
6.	मुकता इम्प्रीवमेंट शोध पूर्ण (अंकित मूल्य रु 10/- प्रत्येक)	31.42	31.42	31.42	
7.	अन्य इम्प्रीवमेंट रिजर्व (पुनर्नवीनीकरण रिजर्व को छोड़कर)	148.18	148.18	148.18	
8.	प्रति शान आय (अंकित मूल्य रु. 10 प्रत्येक) (जारी और बंद परिभाषा के लिए)				
नैतिक		87.71	-0.39	11.53	
नलर		0.00	0.00	0.00	

नुओर

1. उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई थी और निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 11 नवंबर, 2024 को आयोजित कंपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा पुनर्निर्माण किया गया है।

2. उपरोक्त सेबी (सूचीकरण) विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर रिमाईनी वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। दायित्व और प्रवर्धनीकृत (आय/उत्पत्ति) विनियम, 2015

माकेटिंग ट्रेडिंग लिमिटेड की ओर से
हस्ताक्षर/प्रमाणित/अधिकृत अधिकारी
दिनांक: 12.11.2024

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के नाम से)

सीआईएन : L65110TN2014PLC097792 पंजीकृत कार्यालय : के.आरएम टॉवर, 8वीं मंजिल, हैदराबाद रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031

दूरभाष : +91 44 4564 4000 | फैक्स : +91 44 4564 4022.

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्धन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

निम्नलिखित कार्यकारी ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से) से निम्नलिखित प्रतिभूत श्रेणियों का प्राधिकृत अधिकारी है। प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें निम्नलिखित कार्यकारी(सी) (उक्त कार्यकारी(सी)) से उनकी जारी की गई संबंधित मांग सूचनाओं(सी) में गणित राशियां, जो नीचे दी गई हैं, चुकाने की मांग की गई थी। उपरोक्त के संबंध में, एतद्वारा, उक्त कार्यकारी(सी) को, एक बार पुनः, यहां नीचे दी गई राशियों का भुगतान सीजीएफए को, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक, ब्रह्म अनुभव के साथ पिटव अथवा दर्तावतियों प्रलेखी, यदि कोई, जो उक्त कार्यकारी(सी) द्वारा निष्पादित किया गया है, के तहत दाय आंग व्याज सहित, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए सूचना दी जाती है। उक्त कार्यकारी(सी) द्वारा ब्रह्म की प्रतिभूति के लिए निम्नलिखित आस्तियां सीजीएफए के पास चकक रखा गई है।

क्र. सं.	विवरण	चाहू रिमाईनी 30.09.2024 को समाप्त	वित्तीय वर्ष 31.03.2024 का समाप्त	वर्ष-दर-वर्ष अंतर 31.03.2024 का समाप्त	वर्ष-दर-वर्ष अंतर 31.03.2024 का समाप्त
1.	परिचालन से कुल आय (मूल्य)	276.21	32.59	101.29	
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवाधिक और/वा असाधारण मदों से पहले)	276.09	2.93	38.51	
3.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) कर से पहले (असाधारण और/वा असाधारण मदों के बाद)	276.09	2.93	38.51	
4.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) कर के बाद (असाधारण और/वा असाधारण मदों के बाद) असाधारण मदों के बाद	275.64			